



# कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय



मो.: 09827953373

इमेल: kvkbemetara@gmail.com

क्रमांक / कृ.वि.के. / स्था. / 2017-18 / 171

बेमेतरा, दिनांक: 10/08/2017

## संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, वार्ड क्रमांक-7, सिंधी धर्मशाला के सामने मोहभट्टा रोड़, बेमेतरा पिन-491335 को सम्बोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 05.09.2017 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
01	प्रक्षेत्र प्रबंधक	18900/-	01	-	-	-	01
02	सहायक ग्रेड-1	15638/-	01	-	-	-	01
03	सहायक ग्रेड-2	13776/-	01	-	-	-	01

आवेदन की अंतिम तिथि :05.09.2017

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हतायें, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.igau.edu.in](http://www.igau.edu.in) पर देखी जा सकती है।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

कं.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
01.	प्रक्षेत्र प्रबंधक	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से न्यूनतम 2.75/4.00 OCGA अथवा 6.50/10.00 OGPA के साथ शस्य विज्ञान/मृदा विज्ञान/अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विषय में कृषि स्नातकोत्तर उपाधि।
02.	सहायक ग्रेड-1	सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 में केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान में अनुभव।
03.	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, में केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान में अनुभव।

*Blue signature*


**नोट:-** सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड-III के पदों पर सुगमता हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/ विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

**नियम एवं शर्तें :-**

1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें ।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज.जा./अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा ।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
6. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा । आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है ।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.09.2017 तक को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी ।
11. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
12. सहायक ग्रेड-I सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड-III के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी। (शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा । आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
13. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।

14. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रु. 200/- का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 01 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (02 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा)।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।
18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
19. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
20. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
21. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।
22. कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर) एवं सहायक वर्ग-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी। (यदि इन पदों का विज्ञापन किया जा रहा हो तो, इस कंडिका उल्लेख करें अन्यथा नहीं)
23. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
24. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिये अर्ह नहीं माने जावेंगे।
25. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
26. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

27. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें ।
28. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रु. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।
29. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 13.09.2017 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.igau.edu.in](http://www.igau.edu.in) पर अपलोड की जावेगी । जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे । निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
30. विज्ञापन, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.igau.edu.in](http://www.igau.edu.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

**INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA**  
**KRISHAK NAGAR, RAIPUR – 492 012 (C.G.) INDIA**



Affix  
Latest colored  
Passport size  
photograph

(Details of application fee)  
D.D. No. -----  
Amount -----  
Date -----

**APPLICATION FORM FOR TECHNICAL ASSISTANT/PROGRAMME ASSISTANT/FARM  
MANAGER CONTRACTUAL BASIS**

Name of the post and Subject -----

Advertisement No. ----- Serial No. of post -----

- 1. Name in full (in block letters) -----
- 2. Father's/Husband's name -----
- 3. Address :  
(i) Present address (for correspondence) : -----  
-----  
-----  
-----

E-mail address ----- Mobile No. -----

- (ii) Permanent home address : -----  
-----  
-----  
-----

4. Date of birth ----- Age -----  
(According to Matriculation Certificate) (Enclose Copy) (As on -----)

5. Are you a bonafide resident of Chhattisgarh **Yes/No**  
(If "Yes" please attach a copy of Domicile Certificate)

6. Place of birth (with name of Village/City, District and State) -----  
-----

7. (a) Mother tongue -----  
(b) Other language (s) which the applicant can speak, read and write fluently -----  
-----
8. Category (UR-Un Reserved/ SC-Scheduled Caste/ ST- Scheduled Tribe/OBC-Other Backward Classes)  
-----  
(if belong to SC/ST/OBC Category, please enclose a certificate from competent authority)
9. What the applicant is married? (Yes/NO) -----
- (a) If you are married, marriage date -----  
(b) The number of children living -----  
(c) If you have more than two surviving child of the last child birth -----
9. If you are Disabled, Type of disability (Please enclose a certificate from competent authority)
- (a) Asthibadit :- -----  
(b) Vision impaired: - -----  
(c) Deaf :- -----

10. Examination passed : (Please enclose copies of certificate/degree & marks-sheet/Transcript etc. for each of the examinations)

Examinations	Name of the degree/ diploma	Name of the University/ Institute	Subject (s) (Major)	Division obtained	Year of Passing	Percentage of marks/OGPA obtained	Enclosure Number	
							Certificate/ Degree	Mark sheet transcript
(i)	High School							
(ii)	Higher Secondary/Intermediate/ pre-University							
(iii)	Bachelor degree							
(iv)	Master degree							
(v)	Doctoral degree							
(vi)	Any other examination (s)							

11. Academic Excellence (Enclose copy of certificates)

(i) Medal at UG/PG/Ph.D.

(a) Gold Medal -----

(b) Silver Medal -----

(c) Bronze Medal -----

(ii) Academic Awards -----

-----

(iii) National Fellowships by (JRF/SRF, etc.) -----

-----

12. **Publications : Research/Extension** (attach complete list in bibliographic form and reprints for proof)

Publication		As first author (No.)	As co-author (No.)
(i)	Full length Research Paper/Review article		
(ii)	Short notes		
(iii)	Published abstracts in seminars		
(iv)	Popular/Extension article		
(v)	Varieties/Technology/Patent developed/disseminated		

13. **Experience:** As RA/RF/SRF/JRF/TA/Farm Manager in any University/R&D organization of repute/Central State Govt. etc. (In reverse chronological order, start from the latest position held. (Enclose copy of appointment order/experience certificate for proof)

S.N.	Name of the Post held	Pay Scale	Organization	Period (from-to)	Experience Year/Month
					Total Experience Year/Month .....



14. Performance in extra-curricular activities- NCC/NSS/Games and Sports/Cultural (Inter University Level) enclosed copy of certificate for proof.

(i)

(ii)

(iii)

15. Additional Remarks, If any : -----  
-----  
-----  
-----

**DECLARATION**

I declare that the entries made in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place -----

Date -----

Signature of the candidate

---

**REMARKS OF THE PRESENT EMPLOYER**

(in the case of those who are already in service)

The applicant Shri/Ku./Smt./Dr. -----  
is holding a permanent/temporary post of ----- in the scale  
of pay ` ----- and his/her present basic pay is  
` ----- per month. His/Her application is forwarded and he/she will be  
relieved in case he/she is selected for the post applied for.

Place -----

Date -----

Signature

Designation of Officer (with official seal)

## आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....  
 .....  
 .....

स्व प्रमाणित हाल  
 की पासपोर्ट  
 साईज की फोटो  
 चस्पा करें ।

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक : .....

आवेदित पद का नाम एवं : .....

संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह) : .....

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : .....  
 (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) : .....

02. पिता/पति का नाम : .....

03. लिंग (महिला/पुरुष) : .....

04. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक  
 (विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर) .....

05. पति/पत्नी का नाम .....

06. विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या ..... जन्म दिनांक.....

07. 26.01.2001 को या उसके के प" चात् जन्म .....जन्म दिनांक .....  
 लिये बच्चों की संख्या

08. यदि निःशक्तता हैं तो निःशक्तता का प्रकार 1. दृष्टिबाधित 2. श्रवण बाधित 3. अस्थि बाधित

09. निः" शक्तता का प्रति" त .....

10. जाति .....

11. संवर्ग (सामान्य/अपिबर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.) .....  
 (आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी  
 प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न  
 करें)

12. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र हॉ/नहीं (यदि हॉ तो संलग्न करें)

13. जन्म तिथि (अंको में) .....  
 (" ब्दों में) .....

14. दिनांक ..... को आयु ..... वर्ष ..... माह ..... दिन

15. स्थाई पता .....

16. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (मोबाइल  
 क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. सहित) .....

17. भौक्षणिक योग्यता :-

क.	उत्तीर्ण परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रति" त/ ग्रेड	श्रेणी

18. अनुभव

क.	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	अवधि

19. वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम एवं पदनाम (कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
20. वि" वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस., खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ (यदि हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
21. अन्य योग्यता :- .....
22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
01. 02.
03. 04.
05. 06.

टीप:- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अन्य प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

**घोषणा पत्र**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर